



जनसम्पर्क कार्यालय : एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

## समाचार

वेम्स तकनीकी से इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का बेहतर संचालन  
प्रोजेक्ट के डाटा फ्लो टेक्नालाजी से होगा पूरा देश लाभान्वित



**जबलपुर, 23 अक्टूबर।** मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा पीएमयू एवं सिंक्रोफ़ेसर पर आधारित द्वि-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आज कल्चुरी होटल में किया गया, जिसमें वेस्टर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर, जेनको, ट्रांसको एवं शासकीय इंजीनियरिंग कालेज, ट्रिपल आईटीडीएम, ज्ञानगंगा, श्रीराम कालेज, तक्षशिला इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रतिनिधियों इंजीनियर्स ने भाग लिया।

कार्यशाला का उद्घाटन मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालक श्री पी.ए.आर. बेन्डे ने दीप प्रज्ज्वलित करके किया। विशिष्ट अतिथि मुख्य अभियंता स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर श्री के.के. प्रभाकर, मुख्य अभियंता टी.एण्ड सी. श्री डी.सी. जैन एवं डिप्टी जनरल मैनेजर वेस्टर्न रीजन लोड डिस्पैच मुंबई श्री राजकुमार एवं निधि मिश्रा थीं।

मुख्य अतिथि श्री पी.ए.आर. बेन्डे ने प्रशिक्षणार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि वेम्स तकनीकी से इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का संचालन बेहतर रूप से होता है। यह तकनीकी लोड डिस्पैच में स्थापित है, जिससे विभिन्न स्थितियों में मॉनिटरिंग की जा सकती है। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के प्रयासों के कारण इस प्रोजेक्ट के डाटा फ्लो टेक्नालाजी में बदलाव किए गए, जिससे पूरा देश लाभान्वित हो रहा है।

कार्यशाला के प्रारंभ में पीएमयू एवं सिंक्रोफ़ेशर के मध्यप्रदेश के प्रोजेक्ट इन्चार्ज व वर्कशाप को-आर्डिनेटर राजेश गुप्ता ने कार्यशाला के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला।

अतिथियों का स्वागत अधीक्षण अभियंता आर.ए. शर्मा, अधीक्षण अभियंता एस.एस. पटेल, शंकर चक्रवर्ती, आर.सी. शर्मा ने किया। मुंबई से आए इंजीनियर राजकुमार, चंदन कुमार, सुशील पाटिल, श्रीनिवास चित्तूरी ने पेपर प्रजेंटेशन किया। संचालन राजेश पाठक ने किया। कार्यशाला की सफलता में शिखर नेमा, सिन्ड्रेला फेलिक्स का सहयोग रहा।

**समाचार क्रमांक: 471/2017**

(राकेश पाठक)  
वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी